ISIN: INE791A01024

To,

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex

Bandra (East)

Mumbai- 400 051

Symbol: BLBLIMITED

To,

The Manager (Listing) BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai- 400 001

Scrip Code: 532290

Sub: Submission of Newspapers Advertisement regarding Notice of 41st Annual General Meeting and Remote E-Voting Information

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to the applicable Regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published today i.e. **2nd September**, **2022** in "**The Financial Express**" (*English*, *all Editions*) and "**Jansatta**" (*Hindi*, *Local Edition*) newspapers, informing the members about the dispatch (in electronic mode only) of Notice of 41st Annual General Meeting along with Annual Report for F.Y. 2021-22 and Remote Evoting information.

This is for your kind information and records.

Yours Sincerely For **BLB Limited**

Digitally signed by MSHANT GARUD
DN c-iiN c-iPersonal,
25-4.20-66017-6987-5980-5980-5080-50080
GARUD
DN c-iiN c-iPersonal,
25-4.20-66017-6987-5980-5980-50080-50080
DN c-iiN c-iPersonal,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,
35-62-61,

Nishant Garud Company Secretary M. No.:- A 35026

Encl: As above

BLB LIMITED

CIN: L67120DL1981PLC354823
Regd. Office: H. No. 4760-61/23, 3rd Floor, Ansari Road,
Darryagani, New Delhi-110002
Website: www.blblimited.com; Tel: 011-49325600

NOTICE OF 4157 ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Dear Member(s),

Dear Member(s),
NOTICE is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of
the members of M/s. BLB Limited (Company) will be convened on
Monday, September 26, 2022 at 03:00 p.m. (IST) via Video Conference
("VCT) Other Audio Visual Means ("OAVM") ONLY to transact the businesses
as set out in the Notice of the 41st AGM, in compliance with the applicable
provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI
(LODR) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated
April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May
5, 2022, No. 02/2021 dated January 13, 2021 and 02/2022 dated May
5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and
Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 issued
by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars")
The venue of 41st AGM shall be deemed to be the Registered Office of

by the Securities and exchange board of India (SEBI Circulars).

The venue of 41st AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company. Members participating through VO/ OAVM shall be reckened for the purpose of quorum. Since this AGM is being held pursuant to the MCA and SEBI Circulars through VO/ OAVM, the requirement of physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this AGM.

will not be available for this AGM.

The Notice of 41st AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22 have been sent in electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company Registrar and Share Transfer Agent (RTA). The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars. The electronic dispatch of Notice of 41st AGM and Annual Report for FY. 2021-22 was completed on September 1, 2022. The aforesaid documents are available on the website of the Company i.e. www.biblimited.com and may also be accessed from the websites of Stock Exchanges is National Stock Exchange of India; Imited (NSE) and Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) at www.nseindia.com and www.nseindia.com and www.nseindia.com and www.nseindia.com and www.nseindia.com (NSDL) at www.nseindia.com. Altional Securities Depositories Limited (NSDL) at www.nseindia.com. Altional Securities Depositories Limited (NSDL) at www.nseindia.com (NSDL) (

Remote E-voting

Remote E-voting

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 (Act) read with Rule 20

of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014,
Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the Secretarial
Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company
Secretaries of India, each as amended from time to time, the Company
is providing to its Members, the facility of remote e-voting before the AGM
and during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the
AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities
Depository Limited (NSDL) to facilitate voting through electronic means.
The detailed instructions for e-voting and joining through VC/ OVAM are
given in the Notice of 41* AGM. Members are requested to carefully go
through the instructions before casting their vote through e-voting.

The details as required pursuant to the Act and Rules are as under:

The details as required pursuant to the Act and Rules are as under

- The remote e-voting period will commence at 09:00 a.m. (IST) on Friday, September 23, 2022 and shall end at 05:00 p.m. (IST) on Sunday, September 25, 2022. The remote e-voting module will be disabled by the NSDL thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
- vote electronically beyond the said date and time. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, September 19, 2022 ('Cut-Off Date). The facility of remote e-voting shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast theirvote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before/ during the AGM Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares.
- Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. September 19, 2022, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL at evoting/nsdl.co.in or may contact the toll-free number provided by NSDL: 1800-1020-990. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information
- The Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM will have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again on such resolution(s) for which the Member has already cast the vote through remote e-voting prior to the AGM. Once the member cast vote on a resolution, the member shall not be allowed to change it subsequently.

Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM an e-voting during the AGM is provided in the notice for 41st AGM.

Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on 1800-1020-990 and 1800-224-430 or contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL, at designated e-mail ID; evoting@nsdl.co.in.

Members who have not registered their e-mail ID may get the same registered/updated with Company/RTA or Depository to cast their vote(s) through remote e-voting before the AGM or through e-voting during the AGM.

Mr. Rupesh Agarwal, Practicing Company Secretary, (Membership No. ACS 16302), failing him Mr. Shashikant Tiwari (Membership No. FCS 11919) Partner(s) Ms. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, have been appointed as the Scruthrizer to scruthinize the remote e-voting process before and during the AGM in a fair and transparent manner.

The result of the remote e-voting before and during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The results declared along with Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website www.bilimited.com and on website of NSDL www.evoting.nsdl.com and website of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) at www.nseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Place: New Delhi Date: 2nd September, 2022

For BLB Limited Nishant Garud Company Secretary Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and other applicable circulars vissued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (Collectively referred to as "relevant circulars").

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM, Annual Report and the financial statements for the financial year 2021-22will be sent only by emails to all those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website altwww.kanoria.org.

Altyww.kanoria.org.

Manner of registering/ updating email addresses:

Members holding shares in physical mode, who have not registered/
updated their email addresses with the Company, are requested to
register/update the same by writing to the Company
atrawats.unita@kanoria.orgwith details of folio number, Name of
shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back),
PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested
scanned copy of Aadhar Card).
In case shares are held in demat mode, please contact your Depository
Participate(DP) and register/update your email address and bank
account details asper process advised by your DP.
The login details for casting the votes through e-voting would be
provided to the members at their e-mail addresses registered for this
purpose.

For and on behalf of Board of Directors of Kanoria Sugar & Gen. Mfg, Co. Ltd. Sd/-

Dated-:

VS. M/S BHARTIYA MICRO CREDIT & ORS.

.Defendents

Debts

Recovery-Tribunal, Lucknow

Date: 01.09.2022 Place: Captainganj, UP Sunita Rawat Company Secretary

FORM NO.5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
600/1, University Road, Hanuman Setu Mandir, Lucknow
(Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh and Uttrakhand)

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION

Summons to defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to banks and financial institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993

Original Application No. 32 of 2021

Siddharth Ravindran, R/O D-2/9, Ardee City, Sector 52, Gurgaon,

Krishana Murari Kumar, R/O Plat No. 119, Flat S-4, Sahibabad, Ghaziabad.

Suman Saurabh, R/O 35, Bhadseni, Chitraghati, Nevada, Bihar

Dipika Malik, R/O B-36, Sarvodaya Enclave, Delhi.

Hanumant Rawat, R/O B-5/119, Second Floor, Opp. Dlta, Safdurganj Enclave, Vasant Vihar, south West,

In the above noted Original application you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorised agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 13.09.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar

Debts

To

Haryana

Members are advised to update their Number, Bank Account Details, Speci details as mandated by SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB /P 2021, read toget SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/C 2021, to avoid freezing of their folios on

· Members holding shares in physica Assignments Limited, in prescribed F instructions mentioned in the form. The Company's website athttps://www.ir services/.

Members holding shares in dem Depository Participants as per the processing Notice is hereby given that pursuant to sand the Rules framed thereunder a Obligations and Disclosure Requireme Members and Share Transfer Books of 26th September, 2022 to 30th September, 2021 to 30th September purpose of the 27th Annual Gener 30th September, 2022.

Place : Chandigarh Date: 01-09-2022

PRITI

PRITIIN

PLOT NO.F-43, BASNI PHONE: 91 E-MAIL: g.d,lohiya

https:

INFORMATION RE MEETI

Dear Member(s), NOTICE is hereby give the members of PRITI INTERNATIONAL 11:00 A.M. at Registered Office of the Cor Rajasthan-342001, India to transact the b The Notice of AGM and the Annual report names appear on the Register of Membe 2022 ("Record Date"), received from the the company or their respective deposi Registrar and Share Transfer Agent (RTA) Notice will also be made available on th website of the National Securities Dep Exchange of India Limited (www.nseindia

Process for registration

(i) For Members holding shares in physic mentioning your folio number, complete a self-attested copy of the PAN and any Statement, AADHAR) supporting the regi email address at cs.pritiinternation investor@bigshareonline.com.

(ii) For the Members holding shares in der respective Depository Participant/s.

Members are requested to carefully read particular, instruction for casting vote throu All communications/queries in this res cs.pritiinternationalltd@gmail.com The above information is being issued for Company.

Date: September 01, 2022 Place: Jodhpur Place: Jodhpur

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1)
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infolin Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security I 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rul Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers /co-borrowers mentioned herein below the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with th

secured assets Name of the Borrower(s) Delhi BRANCH Mr. Arun Singh, Mrs. Jaya, Shri Mahalaxmi Enterprises and Armaan Enterprises (Prospect No. 765870,

940883 & 964098)

Description of secured asset (immovable property)

1. All that piece and parcel of: COMMERCIAL FREE HOLD BUILT UP
UNIT /SHOP BEARING NO. 101, HAVING ITS SUPER AREA
MEASURING 293.44 SQ. FT., (27.26 SQ. MTRS..), 102 HAVING ITS
SUPER AREA MEASURING 293.44 SQ. FT., (27.26 SQ. MTRS..), (Rupees One Crore
103 HAVING ITS SUPER AREA MEASURING 293.44 SQ. FT., (27.26 SQ. MTRS..), (Rupees One Crore
103 HAVING ITS SUPER AREA MEASURING 293.44 SQ. FT., (27.26
SQ. MTRS..), AND COVERED AREA MEASURING 264.10 SQ. FT.,
(24.53 SQ. MTRS.), FIRST FLOOR, BUILT-ON PLOT NO. F-1, F-2
AND F-3, BUILDING KNOWN AS NORTH SQUARE MALL,
DISTRICT CENTRE, WAZIRPUR, SUNCITY PROJECTS PVT
9 4 0 8 8 3 R s.
LTD., NETAJI SUBHASH PLACE, PITAMPURA, DELHI-110034. 2 All
LTD., NETAJI S

Date of Notice

2022

पंजीकरण सः IBBI/IPA-001/IP-P-01969/2020-2021/13039 एएफए प्रमाणपत्र सः AA1/13039/02/010523/104158|वैधताः 1 मई 2023

दिनांक: 02.09, स्थान: जयप

बज डीटल ल रॉ.य. 2206, राजपुर राङ, यूना मङ, पहाङ्गज, नह । दरल्ला-110055 म एजाएन का पूनन न निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए किया जाएगा।
2 कंपनी (प्रवचन और प्रशासन) नियमावली 2014 ('नियमावली') के नियम 20 के साथ पढ़ित कंपनी अविनियम 2013 ('अधिनयम') की धारा 108 के अनुसार, कंपनी जो है वह अपने सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा प्रवान की गई, एजीएम के स्थान के अतिरिवत किसी अन्य स्थान से इलंक्ट्रोनिक रूप में अपने ट्वाट डालने ('रिनोट ई-नोटिंग') की सुविचा उपलब्ध करा रही है और एजीएम की सुवना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इस तरह के मतदान को माध्यम से व्यवसान का लेन-देन किया जा सकता है;
3. एजीएम की सुवना और 2022 की वार्षिक रिपोर्ट की इलंक्ट्रोनिक प्रतिया जन सभी सदस्यों को सेन ही गई हैं, जिनड़ी ईमेल आईडी कंपनी/डिवॉजिंक्ट सक्तामीयों के पास चंजीकृत हैं। यह प्रतिया, कंपनी की वेबसाइट www.advitiyatrade.co पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सुवना तथा 2002 की वार्षिक रिपोर्ट समस्त अन्य सदस्यों को उनके पंजीवृत गर्ती पर अनुमस्य माध्यम से भेज दी गई हैं।
कट-और लिख वुडस्तिवास 22 सितंबर 2022 के अनुसार भीतिक रूप में या अमीतिक रूप में शेवर रखने वाले सदस्य, सेंट्रल डिवॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडिंगएसएल) की इलंक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणालों के माध्यम से एजीएम की स्वान के कलावा किसी अन्य खाना (रिमोट ई-बोटिंग) से एजीएम की सुवना में निर्धारित व्यवसाय पर इतनेवाहीनेक रूप से अपना बोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि:

1- एजीएम की सुवना में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन, इलंक्ट्रोनिक माध्यमों से मतदान के माध्यम से किया जा

राज्या है; III- रिसोट ई-बोटिंग का प्रारंग 25 सितंबर 2022 को प्रातः 9.00 बजे होगा; III- रिसोट ई-बोटिंग का समापन 27 सितंबर 2022 को साथ 5.00 बजे होगा और उसके बाद ई-बोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी;

नहीं दो जाएगी;

17 इतेवहाँनिक माध्यम से उस एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि बृहस्यतिवार

22 शितबर 2022 है।

- कोई भी व्यक्ति, जो कंपमी के शैयरों का अधिप्राहण करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपमी
का सदस्य वन जाता है और कट—ऑफ तिथि क्यांत् बृहस्यतिवार 22 सितंबर 2022 के अनुसार श्रेयर धारण
करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक अनुसेव मेजकर तींगिन आईओ और
पात्रबर्द आप कर सकता है। दालांकि, चिह कोई व्यक्ति चहते से ही ई-बोटिंग के लिए सीडीएएएस के साथ
पंजीकृत है तो विद्यमान पूजर आईडी और पासवर्द का उपयोग बोट ढालने के लिए किया जा सकता है;

18 सदस्य व्यान दें कि

VI- सदस्य ध्यान दें कि:

क) रिगोट ई-वोटिंग मोंड्यूल को सीडीएसएल द्वारा 27 सितंबर 2022 को साथ 5.00 बजे के बाद निष्क्रिय कर विवा जाएगा और एक बार किसी प्रस्ताब पर सतस्य द्वारा बोट डाले जाने के बाद सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

ख) बैतेट ऐपर के गाव्यम से मत्रवान की सुविधा, एकीएम के स्थान पर उपलब्ध कचाई जाएगी;

गे वे सतस्य जिन्हों ते एजीएम से पहले रिनीट ई-वोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं तेकिन उन्हें पुत्र बोट डालने का अविकार नहीं होगा, तथा

ш) एक व्यक्ति जिसका नाम, सदस्यों के रिजिटर में या हिप्तीटिंग द्वारा अनुरबित लामार्थी स्वामियों के रिजिस्टर में या हिप्तीटिंग द्वारा अनुरबित लामार्थी स्वामियों के रिजिस्टर में या है केतत वही रिनीट ई-वोटिंग की सुविवा के साथ-साथ मतपन के माध्यम से एजीएम में मतवान करने की सुविवा करने के माध्यम से एजीएम में मतवान करने की सुविवा करने के माध्यम से एजीएम में मतवान करने की सुविवा प्राप्त करने के माध्यम से एजीएम में मतवान करने की सुविवा प्राप्त करने के साथ-साथ प्रमापन की माध्यम से एजीएम में मतवान करने की सुविवा प्राप्त करने के सिक्टर के का कवार होगा।

VII- एजीएम की सुवना कपनी की वेबसाइट www.advitiyatrade.co और सीडीएसएल की वेबसाइट www.acvotingindla.com पर में चटला है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रसा-रिकायत के लिए अशाचारकनण इनसे संपर्क कर सकते हैं. स्काईलाइन फाइनीरेयल सर्विम प्रावहेट विमिटेड, डी—153—ए, प्रथम तल, ओखला ओधीगिक क्षेत्र, फंज — 1, नई दिल्ली—110020, किसी के सतस्यों का रिजेस्टर और अंश अंतरण बहियां, बृहस्यतिवार 22 सितंबर 2022 से लेकर के ब्रावार 28

कमनी के सत्तरायों का रिजिस्ट्र, और अंश अंतरण बहियां, बूहस्पतिवार 22 सितंबर 2022 से लेकर के बुधवार 28 सितंबर 2022 (दोनों दिन सामिसित) तक बंद रहेगी।

गोयल एल्युमिनियम्स लिमिटेड के लिए एवं उसकी ओर से (पूर्व में एडवितिया ट्रेड इंडिया लिमिटेड के रूप में अमिज्ञात)

दिनांक: 02.09.2022 स्थानः नई दिल्ली

हस्ता./ मयंक निगर

हिन्दुस्तान अधेसिव लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) :L74899DL1988PLC031191 पंजीकृत कार्यालय :बी-2/2, सफदर्जंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029 दूरभाष :011-41650348, फैक्स : 011-26191358

ई-मेल : accounts@hindustanadhesives.com, वेबसाइट : www.bagla-group.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों तथा सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 (सामुहिक रूप से 'एमसीए परिपन्न' के रूप में संदिष्णित) एवं प्रास्तीय प्रतिभृति विनित्तम बाँढ (सेवी) इसा जारी परिपन्न सेवी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीएलआर / पी / 2020/79 दिनांक 12 माई, 2020, सेकी परिपन्न संख्या सेवी / एचओ / सीएफडी/सीएमडी/सीआईआएपीए2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और उदघाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 द्वारा - जारी - सेबी परिपन्न उद्भारन अपनाए) ।वापनम, २०१३ करा गाउ तथा पारम राज्य सेबी/एनओ/सीएमडी/सीएमडी/सीआईआर/पी2022/62 दिनांक १३ मई २०22 के अनुपालन में एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भीतिक उपस्थित के बिना कंपनी की चौतीसवीं (३४वीं) वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, ३० सितंबर, २०22 को संस्था दोपहर 2:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) की सुविधा के माध्यम से

वार्षिक रिपोर्ट 2021–2022 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन संदर्त्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते उक्त एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं-मेल पते उक्त एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार कंपनी/हिपाँजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 कंपनी की वेबसाइट www.bagla-group.com और कंपनी की सर्वेक एससचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम मुक्तिया के माध्यम से एजीएम में गाग ले सकते हैं और इसमें डपस्यत हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैटक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनिक्षम, 2013 की थारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी। एताडार सूचना पी जाती है कि उथीं वार्षिक आम बैटक (एजीएम) आयोजित करने की सूचना में दिल्लखित प्रकार्यों पर तैन-देन के लिए कम्पनी के शेवरथारकों को एजीएम वीडियों कोफेरिमि/अपन आंडियों-विज्ञुबल साधनों (''बीसी/ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 11:00 बने प्रता: मासीय मानक समय (''बारा/ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 11:00 बने प्रता: मासीय मानक समय (''बारा/ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 11:00 बने प्रता: मासीय मानक समय (''बारा/ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 11:00 बने प्रता: मासीय मानक समय (''बारा/ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 11:00 बने प्रता: मासीय मानक समय

("वासा/आप्वाप्स") ध्रुविधा क मार्थ्यम स बुधवार, 25 स्थान्यर, 2020 का 11.00 क्या आहा गारावा नामक समय ("भा.मा.स.") पर आयोजित को जायेगी। कॉपीरेट मामले मन्त्रावय द्वारा निर्गत सामान्य परिपर्जी दिनांक 8 अग्रैल, 2020 तथा 13 अग्रैल, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 (सामृहिक रूप में एमसीए परिपर्व 'सन्दर्भित) तथा भारतीय ग्रितिभृति एवं वितिमय बोर्ड ('संबी') के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालम में यार्थिक रिपोर्ट 2019 20 सिंहत 32वीं एजीएम की सुचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल प्रते कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट तथा डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं।

इस उद्देश्य हेतु, इम उन श्रेयरधारको से अनुरोध करते हैं जिन्होंने अपने हैं-मैल पते तथा स्थायी खाता संख्या अपनेट नहीं कराये हैं, कृपया अपने पैन कार्ड/आधार/बैंघ पासपोर्ट/शेषर प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ अपने फोलियो नं./डीपी/क्लाइट आईडी, प्रमाणपत्र सं., पैन, मोबाइल नं., ई-मेल आईडी का उल्लेख करते हुए नीचे उल्लिखत लिंक का

अनुपालन करके इसे पंजीकृत कराने का निवेदन किया जाता है। सदस्यों के ई-मेल आईडी तथा बैंक विवरण पंजीकृत कराने की प्रक्रिया

डीमैट जिन सदस्यों के पास कम्पनी के इक्किटी शेवर डीमैट प्रारूप में है और जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं वे अपने ई-मेल पते कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एशेंट मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक http://linkintime.co.in/emailreg/email register.html पर क्लिक करके और उसमें निर्देशित पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करके आस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। किसी और उसमें निर्देशित पंजीकरण को प्राक्रया का अनुभावन करक अस्थावा रूप स पवाकृत करा समार हो प्राप्त पृष्ठताकु के लिए सदस्य मैसर्स विक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के पास mt.helpdesk@linkintime पर ई-मेल कर सकते हैं। यह स्पन्ट किया जाता है कि ई-मेल पते तथा अपने डोमेट खाते में बैंक विवरणों को स्थायी रूप से पंजीकृत कराने के लिए सदस्य अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी मागीदार (''डीपी'') से सुम्पर्क करें और डीपी द्वारा परामर्शित प्रक्रिया का अनुपालन करें।

क्षित क्षाप्त प्रभावता आक्रा का अपूर्वाचा विश्व में स्वित प्राप्त के स्वित क्षाप्त के इंक्विय अपने इं-मेल पता तथा/अथवा बैंक खाता विवारण पंत्रीकृत नहीं कराया है वे अपने इं-मेल पते कम्पनी के रिकारहार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स विकं इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक http://linkintime.co.in/emailreg/email register.html पर बिलक करके और उसमें निर्देशित पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करके अस्थायों रूप सं पंजीकरण साथ सकते हैं किसी पूलनाष्ट के लिए सदस्य मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के पास rnt.helpdesk@linkintime पर इं-मेल कर सकते हैं। भौतिव rnt.helpdesk@linkintime पर ई-मेल कर सकते हैं।

उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए, कंपनी के शेयरधारकों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता हैं: मैससं लिंक इनटाइम इंडिया प्राहवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहलो मीजिल, प्लॉट नंबर एनएप २, सी-1 छलोड, एलएससी, सावियी मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058, दूरभाषः 011-41410592/93/94, टेलीफैक्स: 011-41410591, ईमेलः delhi@linkintime.co.in से सम्पर्क करें

> कृते एवं हिते हिन्दुस्तान अ

बीएलबी लिमिटेड

(CIN: L67120DL1981PLC354823) पंजी. कार्यालवः एच.चं. ४७६०-६१/ २३, उरा तल, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 वेबसाईटः www.blblimited.com, ई-मेलः infoblb@blblimited.com फोन: 011-49325600

41वीं वार्षिक साधारण सभा तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना प्रिय सदस्य (यों),

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित एतद्वारा सुचित किया जाता ह कि कम्पना आधानयम, 2013 तथा उसक तहत ानामत नियमों के प्रायधानों और कॉपिरट कार्य मंत्रालय हारा जारी साधारण परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 18 अप्रैल, 2020, 12/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 तथा 02/2022 तिथि 5 मई, 2022 ('एमसीए परिपत्र') तथा सेबी भारतीय प्रतिसृति और विनिमय बोर्ड हारा जारी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 तथा दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा 13 मई, 2022 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में मैसर्स बीएलबी के साथ पाठत सथा (एलजाडाजार) गानायम, 2015 के अपूर्यालन में मत्तर वाएरावा तिसिरिड (काप्पनी) के सदस्यों की 41वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 3.00 बजे अप. (भा.मा.स.) में केवल विडियों कान्फ्रेंस ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा अमंत्रित की जाएगी जिसमें 41वीं एजीएम की सूचना में निर्हिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

41वीं एजीएम का स्थान कम्पनी की पंजीकृत कार्यालय माना जायेगा। वीसी/औएवीएम भावा एजाएम जा रचना जनमा का मजाकृत कामादान गाम जारूमा नारा जारूमार के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी। चूंकि यह एजीएम एमसीए तथा सेबी परिपन्नों के अनुसार वीसी/ओएबीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थित समाप्त कर दी भाव्यम स् जान्याचत का चा रहा ह जतः सदस्या का भातक उपास्थत समाप्त कर दा गयी है। तदनुसार सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की निवृक्ति इस एजीएम में उपलब्ध नहीं होगी। 41वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021–22 के लिये कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी है जिनके ईमेल पते कम्पनी, अपेदा इराक्ट्रामक माज्या ते जा स्वरूप का नग पा व व विकास श्राह का नगर हैं। रिगस्ट्रार तथा श्रेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियों को भेजने की आवश्यकता को एमसीए सर्क्युलर्स तथा सेबा सर्क्युलर द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

41वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने का कार्य 1 सितम्बर, 2022 को पूरा किया जा चुका है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.blblimited.com पर उपलब्ध है तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.blblimited.com पर उपलब्ध है तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाईटों क्रमशः www.inscindia.com तथा www.bscindia.com के सम्बंधित खंडों में भी देखी जा सकती है। एंजीएम की सूचना नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाईट vww.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई-बोटिंग

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 क विनियमन 44 तथा इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण सभाओं पर सचिवालयी मानकों (''एसएस-2'') प्रत्येक समय-समय पर यथा-संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के अनुसार कम्पनी एजीएम में निष्पादित होने व्यवसाय के लिये सदस्यों को एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान-वोटिंग की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है तथा इस उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिये कम्पनी ने एनएसडीएल को नियुक्त किय

हैं -बोटिंग तथा वीसी/ ओएवीएम द्वारा शामिल होने के लिये विस्तृत निर्देश 41वीं एजीएम की सुचना में दी गई है। सदस्यों से आग्रह है कि ई-बोटिंग द्वारा अपना मतदान करने से पूर्व निर्देशों का सावधार्गपूर्वक अध्ययन कर लें।

से पूर्व गंपरता का लाव्यामापूर्वक अञ्चलक कर ला। अधिनियम तक्षण नियमावर्ष के अनुपालन में वांकित विवरण इस प्रकार हैं: क) रिमोट ई-बोटिंग अवधि शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा, (आईएसटी) में शुरू होगी तथा रविवार, 25 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। उसके, बाद एनएसडीएल हारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धित निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा उक्त तिथि एवं समय के बाद सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नि

इत

40

य

दौ क

ने

स

व Ч

ल ख

वे य

F

3 कृ वि

प्र स- क् नेव

उ ए सं

कि ज्य

का जा जी

fr

₹

व

ų.

दू

स मतदान का अनुमात नहीं दा जायगा।

ख) सदस्यों के मतदान का अधिकार सोमवार, 19 सितंम्बर, 2022 (कट-ऑफ लिथ)

को कम्पनी की प्रदत्त इंकियरी शंयर पूंजी में उनकी शंयरों के अनुपात में होगा। सभा के
दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होंगे तथा सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों
जिन्होंने पूर्व में रिमोट ई-वोटिंग हारा अपना मतदान नहीं किये हों, सभा में मताधिकार
का प्रयोग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों/ लाभ भोगी
स्वामियों के राजिस्टर में दर्ज होगा केवल वे ही एजीएम से पूर्व/दौरान रिमोट ई-वोटिंग के लिये अधिकृत होंगे।

ग) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिये लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई टोल-फ्री नं. 1800-1020-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं वे केवल जानकारी के लिये एजीएम सूचना देखें।

दखा । भ) जिन्न सक्स्यों ने एबीएम से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग द्वारा पहले ही अपना मतदान कर दिये हों वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन प्रस्तावों पर पुनः मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगें जिस पर उन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग हारा मतदान पूर्व में ही किये हों। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

रिमोट ई-बोटिंग, एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के विस्तृत

(स्माट इन्चाटन, एजाएम न सामक छान तथा एजाएम क दारान इन्याटन क विस्तृत निर्देश 41वीं एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। ङ) जिन सदस्यों को एजीएम से पूर्व या उसके दौरान सहयोग की जरूरत हो, वे एनएसडीएल से टेली. ने: 1800-1020-990 तथा 1800-224-430 पर सम्पर्क क या सुश्री सरिता मोते, सहायक प्रबन्धक, एनएसडीएल से निर्दिष्ट ई-मेल आईडी evoting@n\$dl.co.in पर सम्पर्क करें।"

जिन सदस्यों ने अपने इंमेंल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे एजीएम से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-बोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए कम्मनी/आरटीए अथवा डिपॉजिटरी के पास उसे पंजीकृत/अग्रतन करा लें।

श्री रूपेश अप्रयाल, कार्यरत कम्पनी राविव (सदस्यता सं. एसीएस 16302) तथा उनकी विफलता में श्री शशिकान्त तिवारी (सदस्यता सं. एसीएस 26994), पार्टनर(रॉ) में. चन्त्रशेकरण एसीसिस्ट्स, कम्पनी सेकेट्रीज को स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से एजीएम से पूर्व तथा दौरान रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

एजीएम से पूर्व तथा दौरान रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा एजीएम की समाप्ति से अधिकतम 48 घंटे में की जायेगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामीं को कम्पनी की वेबसाईट www.blblimited.com तथा एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com तथा स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट अथात बीएस लिमिटेड ('बीएसई') तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर प्रदर्शित जायेगा।

वीएलबी लिमिटेड के लिये

हस्ता./

स्थानः नर्ड दिल्ली निशान्त गरुड तिथि : 2 सितम्बर, 2022 कम्पनी सचिव